

प्रेस नोट



मिलिट्री आसूचना इकाई एवं यूपी एटीएस की संयुक्त कार्यवाही में पाकिस्तानी आईएसआई एजेंटों को संवेदनशील सूचनाएँ भेजने वाला वाराणसी से गिरफ्तार

दिनांक : 20 जनवरी, 2020

मिलिट्री आसूचना इकाई द्वारा एटीएस को आसूचना दी गयी थी कि वाराणसी, उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक व्यक्ति अपने मोबाइल से पाकिस्तानी आईएसआई एजेंटों के सम्पर्क में है। एटीएस एवं मिलिट्री आसूचना इकाई द्वारा संयुक्त रूप से इस इनपुट को विकसित किया गया और पाया कि राशिद अहमद पुत्र इदरीश अहमद निवासी छित्तपुर, बीएचयू हाल मुकाम चौरहट पड़ाव थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली, उत्तर प्रदेश पाकिस्तानी आईएसआई एजेंटों के सम्पर्क में है और उनको अपने फोन से फोटो खींच कर भेजता है।

अभियुक्त रशीद अहमद को दिनांक 19.01.20 को गिरफ्तार किया गया और इस सम्बन्ध में मु.अ.सं. – 01/20 अंतर्गत धारा – 123 IPC थाना-एटीएस उत्तर प्रदेश पर पंजीकृत किया गया है।



राशिद अहमद पुत्र इदरीश अहमद निवासी छित्तपुर, बीएचयू हाल मुकाम चौरहट पड़ाव थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली, उत्तर प्रदेश। उम्र – 23 वर्ष

बरामदगी :

- एक अदद मोबाइल फोन Vivo Y93

प्रारंभिक पूछताछ विवरण :

- गिरफ्तार अभियुक्त दो बार पाकिस्तान जा चुका है और वहीं पर आईएसआई एजेंटों से मिला था।
- आईएसआई एजेंटों को अभी तक अनेक महत्वपूर्ण स्थानों एवं आर्मी / सीआरपीएफ कैम्पों की रेकी कर उनकी फोटो एवं वीडियो भेजी है।
- फोटो एवं वीडियो भेजने के एवज में आईएसआई एजेंटों ने अभियुक्त को रुपये एवं गिफ्ट भी भेजे हैं।

अग्रिम पूछताछ के बिंदु

- अभी तक कितने स्थानों / कैम्पों की रेकी कर फोटो प्रेषित की गयी है ?
- कितनी बार फोटो / वीडियो भेजने के बदले रुपये / गिफ्ट मिले ?
- कहाँ-कहाँ के स्थानों / कैम्पों की फोटो भेजने के लिए आईएसआई एजेंटों ने कहा था ?
- इस काम में कितने और साथी सम्मिलित है ?